

17th July, 2020

BSE Ltd. Corporate Relationship Department 1st Floor New Trading Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street Fort, Mumbai – 400001 Scrip Code – 530517	National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051 Scrip Code – RELAXO
--	---

Sub: Intimation and Newspaper Advertisement regarding loss of share certificates

Dear Sir,

Pursuant to Reg. 39(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that company has received a request for issue of duplicate share certificates in lieu of the original lost/misplaced as per following details:

FOLIO NO.	NAME OF HOLDER	CERT NO(S).	DISTINCTIVE NOS.	NO OF SHARES	FACE VALUE OF SHARES (in Rs.)
RNE0000662	Mahesh Kumar Mahendra	100332	568026-570025	2000	1.00
		103432	60358116-60360115	2000	

In this regard, we enclose herewith newspaper advertisement, published in Financial Express and Jansatta, Delhi Edition on 17th July, 2020.

The same is for your information and record.

Thanking You,

For **Relaxo Footwears Limited**

Vikas Kumar Tak
Company Secretary

Encl. as above

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700

Fax: 46800 692 E-mail: rfi@relaxofootwear.com

CIN L74899DL1984PLC019097



CCL INTERNATIONAL LIMITED
 REGD. OFF. : M-4, GUPTA TOWER, B/11, COMMERCIAL COMPLEX, AZADPUR, NEW-DELHI-110 033
 Ph. 0120-4214258, Email: cmpsec@cclil.com, website : www.evocreteindia.com

Statement of Audited Financial Results for the Quarter & Year Ended March 31, 2020

S. No.	Particulars	Standalone		Year Ended		
		Quarter Ended		Year Ended		
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2019	
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	
1.	Total income from operations	1,015.61	839.63	1,638.80	2,920.36	3,833.99
2.	Net Profit/ (loss) for the period (before Tax, exceptional and extraordinary items)	(46.86)	250.17	129.80	218.80	222.28
3.	Net Profit/ (loss) for the period before Tax (after exceptional and extraordinary items)	(46.86)	250.17	129.80	218.80	222.28
4.	Net Profit/ (loss) for the period after Tax (after exceptional and extraordinary items)	(47.24)	249.50	120.27	213.73	200.86
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(47.24)	249.50	120.27	213.73	200.86
6.	Paid up equity share capital (face value Rs.10/- each)	1,919.26	1,919.26	1,919.26	1,919.26	1,919.26
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				2,623.31	2,413.87
8.	Basic and Diluted Earning Per Share (Rs.) (not annualized)					
	-EPS before exceptional item	(0.25)	1.30	0.63	1.11	1.05
	-EPS after exceptional item	(0.25)	1.30	0.63	1.11	1.05

Notes:

- The above results have been reviewed Audit committee at their meeting held on July 16, 2020 and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on July 16, 2020.
- The Financial results have been prepared in accordance with Ind AS as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015.
- The entire operations of the company relate to two segments viz Trading & Construction. Hence, segment reporting as per Ind AS 108 is made.
- The Novel Corona virus (COVID -19) pandemic announced as such by the World Health Organization on 11th March 2020, has contributed to a significant decline in the global and Indian market, and significant decrease in economic activity. The Management has considered the possible effect, if any, that may result from this pandemic on amounts relating to the trade receivables & inventories. In assessing the recoverability of receivables, the company has considered internal & external information upto the date of approval of these financial results including credit reports & economic forecasts. It has accordingly appropriately made provisions/impaired assets whenever required & accounted for the same in these results as per accounting standards. The impact assessment of COVID -19 is an on-going process and the company will continue to monitor any material changes to future economic conditions and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government mandated or elected by the company.
- Figures for the previous year have been re-arranged wherever necessary, in line with the current period presentation.
- The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results for the Quarter ended 31.03.2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.evocreteindia.com.

For and behalf of Board of Directors
CCL International Limited
 Sd/- Rama Gupta Managing Director DIN : 00806613
 Sd/- Akash Gupta Director DIN : 01940481

Date: 16th Day of July 2020
 Place: New Delhi

PADAM COTTON YARNS LTD
 (CIN No. : L17112HR1997PLC033641)
 REGD OFFICE: 196, 1 ST FLOOR, OPP. RED CROSS BHAWAN, G.T. ROAD, KARNAL - 132001 (HARYANA)
 www.padamcotton.com email: rajeevsax@yashoo.com Tel: 0184-6616001-9
NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 21 st July, 2020, to inter-alia, consider and approve the Company's audited financial results of the Company for the quarter & year ended on March 31 st, 2020. The information is also available on the Company's website i.e. www.padamcotton.com and also on the website of the stock exchange, where securities of the company are listed, viz. BSE Ltd.
 www.bseindia.com, (Scrip code: 531395).
 By order of the Board For Padam Cotton Yarns Limited
 Sd/- (Rajeev Gupta) Managing Director DIN: 00172828
 Place: Karnal
 Dated: July 16 th, 2020

DELHI TRANSCO LIMITED
NOTICE INVITING E-TENDERS
 Delhi Transco Ltd., a Government of NCT of Delhi Undertaking, invites tenders for the following works:
1. Tender No. T20P080283 : Supply, Erection, Testing & Commissioning of 66 kV CVT (2-Core) along with associated civil work at 220 kV/66kV sub station Pappankalan-III, New Delhi-Turkey Basis.
2. Tender No. T19P122085 : Providing services for attending breakdowns and shutdowns at 220 kV substations & lines under DGM(T) O&M - East for two years.
3. Tender No. T19P122065 : Providing services for attending breakdowns and shutdowns at 220 kV substations & lines under DGM(T) O&M - South for two years.
Last date for bid submission: (07.08.2020 for Sl.No. 1 at 01.30 pm), (10.08.2020 for Sl.No. 2) & (10.08.2020 for Sl.No. 3) at 01.00 pm.
 For further details please logon **Delhi Govt. website https://govtprocurement.delhi.gov.in** (Tender ID No. 2020_DTL_192562_1, 2020_DTL_192574_1 & 2020_DTL_192573_1) respectively and **DTL website: http://www.dtl.gov.in** (Unique No. DTL-7604-150720, DTL-7611-160720 & DTL-7612-160720) respectively.
PR/20-21/10
All Corrigendum/Addendum/Amendments/Date of Extension/Clarifications, if any, to the above e-tender would appear only on the above mentioned websites.

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
 CIN No.-L74899DL1984PLC019097
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi - 110085
 Ph: 91-11-46800600, 46800700; Fax No: 91-11-46800692
 E-mail: fl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com
NOTICE
 Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company.

FOLIO NO.	NAME OF HOLDER	CERT. NO(S)	DISTINCTIVE NOS.	NO. OF SHARES	FACE VALUE OF SHARES (IN ₹)
RNE000662	MAHESH KUMAR MAHENDRA	100332 103432	568026-570025 60358116-60360115	2000 2000	1.00

 Any person having any claim / objection in respect of the above requests should lodge such claim / objection with Kin Technologies Private Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at its office situated at Karys Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032 or with the Company at its registered office or corporate office at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi - 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests.
 For Relaxo Footwears Limited
 Sd/- Vikas Kumar Tak Company Secretary
 Place: New Delhi
 Date: 16th July, 2020

punjab national bank BRANCH OFFICE JALALABAD WEST
Together for the better

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)
 Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab National Bank, under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against the account calling upon the respective borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice, date of receipt of the said notice.
 The borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property(ies) described here below in Exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of said ACT read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned against each account.
 The borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property(ies) and dealing with the property(ies) will be subject to the charge of the Punjab National Bank, for the amount and interest thereon.
 The borrower(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (5) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s).

Name of the Branch/ Borrower(s)/Guarantor	Description of the Property Mortgaged	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
Borrower : M/s Barkirat Singh & Sons Add: Shop Near Sabz Mandi New Grain Market, Jalandabad West	All part and parcel of the Property of: Double Story Commercial Shop having area of 24.44 Sq. yards situated at Property No. B17/A, Opp. India Overseas Bank, Lawrence Road, Jalandabad West bearing RTD No. 896, dated 26.05.1994. Owned by Sh. Sh. Aji Singh R/o Daljeet Singh and Sh. Ajeet Singh.	28.01.2020	16.07.2020	Rs. 20,86,366/- (CC) in Words (Rs. Twenty Lacs Six Thousand Three Hundred Sixty Only) as on 08.01.2020 with future interest w.e.f. 01.01.2020 costs, charges and other expenses thereon. (Less Recovery affected thereafter, if any).
Borrower : Smt. Kaur S/o. Brahm Parkash (through its Legal heirs) Sh. Sahil S/o late Sh. Vijay Kumar, Smt. Deepika D/o Late Sh. Vijay Kumar & Smt. Poonam W/o Sh. Vijay Kumar All are R/o House No. 1364, Ward No. 9, Kalka Mandir Street, Jalandabad West.	Property 1. All parts and parcel of the Property of:- Residential house measuring 2.50 marlas i.e. 5/5858 share of 148 Kanals 09 marlas (i.e. 1/5 share of 30*45) comprised in Khasra No. 395/2/2(146-9) Khewat No. 2164, which is bounded by the boundaries as East : Surinder Kumar Handa, West : Street, North : Street, South : Krishan Lal, Situated at H. No. 1753A/135, Ward No. 3, Near Jai Mah Mandir, Jalandabad West having RTD No. 1261 dated 11.09.2015 in the Name of Smt. Poonam W/o Sh. Vijay Kumar. Property 2. All parts and parcel of the Property of:- Residential house measuring 2.50 marlas (i.e. 1/5 share of 30*45) comprised in Khasra No. 395/2/2(146-9) Khewat No. 2164, which is bounded by the boundaries as East : Surinder Kumar Handa, West : Street, North : Street, South : Krishan Lal, Situated at H. No. 1753A/135, Ward No. 3, Near Jai Mah Mandir, Jalandabad West having RTD No. 1262 dated 11.09.2015 in the Name of Smt. Sangita W/o Sh. Raj Kumar. Both are R/o House No. 1753A/135, Ward No. 3, Near Jai Mah Mandir, Gandini Nagar, Jalandabad West.	21.05.2020	16.07.2020	Rs. 2,38,964.82 (CC) in Words (Rs. Two Lacs Thirty Six Thousand Nine Hundred Sixty Four & Paise Sixty Two Only) as on 30.05.2019 with future interest w.e.f. 01.08.2019 costs, charges and other expenses thereon. (Less Recovery affected thereafter, if any).

Date : 16.07.2020 Place : Jalandabad West Authorized Officer

punjab national bank BRANCH OFFICE JALALABAD WEST
Together for the better

DEMAND NOTICE U/S 13(2) OF SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT) READ WITH RULE 3 OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002.
 All of you, the under mentioned persons (Borrowers/Guarantor(s)), were sent Registered Demand Notices under section 13(2) of SARFAESI ACT-2002 of dates mentioned there against hereunder by the "Authorized Officer" of the Bank, calling upon you, all, to pay the amount of demand notice mentioned against account, as a date of notices with further interest till payment within 60(sixty) days of the notice. The said Demand Notice could not be served upon all of you and in certain cases the same were returned unserved. The undersigned being the Authorized Officer of Secured Creditor Bank has reasons to believe that all of you can not be served with the demand Notice ordinarily except by mode of substituted service. Hence, each of you is hereby called upon through this public notice to pay the below mentioned amount with further interest up to the date of payment due against you within 60 days from the date of this publication, failing which, the Bank shall proceed under section 13(4) of the said Act-2002 for taking possession of Secured Assets mentioned herein below and thereafter to sell the same so as to realize the dues with further interest till realization with cost. Guarantor/ Mortgagee(s) due to non payment of dues by the Borrower, guarantee given by them in hereby invoked and you are called upon to pay the entire dues.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/Guarantor	Date of NPA	Date of Demand Notice	Amount Outstanding
1.	Borrower : 1. M/s Ram Lal Om Parkash, Shop No. 32, New Grain Market, Jalandabad West -152024. 2. Sh. Shashi Bala W/o Ashok Kumar Aneja R/o Civil Hospital Road, Jalandabad West - 152024. 3. Sandeep Kumar S/o Bhagwan Das R/o 209-B, Bhai Sant Singh Street, Ward No. 10, Jalandabad West -152024. Guarantor : 1. Brij Mohan S/o Ram Chand R/o 4A, Kailash Nagar, Fazilka. 2. Sh. Ram Lal (Deceased) S/o Sh. Daulat Ram through its legal heir Ashok Kumar Aneja S/o Ram Lal R/o Near Ram Shamam Ashram, Ferozpur Road, Jalandabad West -152024. 3. Ashok Aneja S/o Ram Lal R/o Near Ram Shamam Ashram, Ferozpur Road, Jalandabad West -152024. 4. Sh. Shashi Bala W/o Ashok Kumar Aneja R/o Civil Hospital Road, Jalandabad West- 152024. 5. Sh. Shubhash Chander S/o Daulat Ram R/o Civil Hospital Road, Jalandabad West- 152024. 6. M/s Ram Lal Om Parkash Shop No. 32, New Grain Market, Jalandabad West. 7. Sh. Ranjit Singh S/o Jaswant Singh R/o Village Chakk Kherke Wala, Tehsil Jalandabad West 152024. 8. Sh. Rajan Watts S/o Sh. Brij Mohan Watts R/o #4A, Kailash Nagar Fazilka. 9. Sh. Navdeep Kumar Asija S/o Roshan Lal Asija R/o #784, PNB Street, Jalandabad West. 10. Sh. Bharat Watts S/o Sh. Brij Mohan Watts R/o #4A, Kailash Nagar Fazilka. 11. Sh. Gorav Aneja S/o Sh. Ashok Aneja R/o Civil Hospital Road, Jalandabad West. 12. Sh. Ankush Asija S/o Sh. Roshan Lal # 784, PNB Street, Jalandabad West. 13. M/s Arora Rice Mills, Fazilka Road, Jalandabad West -152024. 14. Sandeep Kumar S/o Bhagwan Das R/o 209-B, Bhai Sant Singh Street, Ward No. 10, Jalandabad West -152024.	15.06.2020	08.07.2020	Rs. 69,86,515.71 (Rupees Sixty Nine Lacs Eighty Six Thousand Five Hundred Fifteen & Paise Seventy One Only) with further interest and other charges w.e.f. 01.04.2020.

DESCRIPTION OF MOVABLE PROPERTY SECURED IN THE ACCOUNT OF M/S RAM LAL OM PARKASH

- Hypothecation of Book-debts.
- Borrower : 1. M/s Arora Rice Mills, Fazilka Road, Jalandabad West- 152024. 2. Sh. Brij Mohan S/o Sh. Ram Chand R/o 4A, Kailash Nagar, Fazilka 152123. 3. Smt. Raj Rani W/o Om Parkash R/o #202, Civil Hospital Road, Jalandabad West - 152024. Guarantor : 1. Sh. Brij Mohan S/o Sh. Ram Chand R/o 4A, Kailash Nagar, Fazilka 152123. 2. Sh. Ram Lal Deceased S/o Sh. Daulat Ram through its legal heir Ashok Kumar Aneja S/o Ram Lal R/o Near Ram Shamam Ashram, Ferozpur Road, Jalandabad West -152024. 3. Ashok Aneja S/o Ram Lal R/o Near Ram Shamam Ashram, Ferozpur Road, Jalandabad West -152024. 4. Sh. Shashi Bala W/o Ashok Kumar Aneja R/o Civil Hospital Road, Jalandabad West-152024. 5. Sh. Shubhash Chander S/o Daulat Ram R/o Civil Hospital Road, Jalandabad West-152024. 6. M/s Ram Lal Om Parkash Shop No. 32, New Grain Market, Jalandabad West. 7. Sh. Ranjit Singh S/o Jaswant Singh R/o Village Chakk Kherke Wala, Tehsil Jalandabad West 152024. 8. Sh. Rajan Watts S/o Sh. Brij Mohan Watts R/o #4A, Kailash Nagar Fazilka. 9. Sh. Navdeep Kumar Asija S/o Roshan Lal Asija R/o #784, PNB Street, Jalandabad West. 10. Sh. Bharat Watts S/o Sh. Brij Mohan Watts R/o #4A, Kailash Nagar Fazilka. 11. Sh. Gorav Aneja S/o Sh. Ashok Aneja R/o Civil Hospital Road, Jalandabad West. 12. Sh. Ankush Asija S/o Sh. Roshan Lal # 784, PNB Street, Jalandabad West. 13. Smt. Raj Rani W/o Om Parkash R/o #202, Civil Hospital Road, Jalandabad West -152024. 14. M/s Ram Lal Aneja Foods Pvt. Ltd. Shop No. 32, New Grain Market, Jalandabad West -152024.**

DESCRIPTION OF MOVABLE PROPERTY SECURED IN THE ACCOUNT OF M/S ARORA RICE MILLS

- Hypothecation of stock of Paddy, Rice & Other Stock and Book- Debts etc.
- Hypothecation of Plant & Machinery and superstructure including all other fixed assets forming part of M/s Arora Rice Mills.

DESCRIPTION OF MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTYIES SECURED IN BOTH ACCOUNT SR. NO. 1 & 2

Property 2. All Parts and parcels of the property of :-

- Owned by M/s Arora Rice Mills :** Land measuring 40K 19M with super structure of unit comprising of office Block, Paddy Plant & Machinery Room, Generator Room, 2 Sheds & 2 Godown & 2 Labour Quarters F.F. Road at JBD bearing RTD No. 3148 dated 17.03.88 RTD No. 3149 dated 17.03.88 RTD No. 3206 dated 24.03.88 RTD No. 2019 dated 31.10.95 RTD No. 4356 dated 01.01.01 and RTD No. 676 dated 25.05.95.
- Owned by M/s Arora Rice Mills :** Land measuring 21K 5M with boundary wall situated at Fazilka Road, Jalandabad West bearing RTD No. 3533 dated 05.11.07.
- Owned by Shri Ashok Kumar and Shri Shubash Chander :** One Commercial Shop (P No. 1635) measuring 14'x40' situated at Bhamansi Bazar, Jalandabad West punjab having area of 82.22 sq. yards bearing RTD No. 204 dated 02.05.85.
- Owned by Sh. Brij Mohan :** One Commercial Shop No. 42 measuring 17.3'x80' in New Grain Market Jalandabad West having area of 153.33 sq. yards in the name of Sh. Brij Mohan S/o Sh. Ram Chand bearing RTD No. 3877 dated 30.11.2009.
- Owned by Sh. Ashok Kumar and Smt. Shashi Bala :** Land & Building measuring 2K 16M situated at Muktsar Road, Adjoining Hanuman Mandir, Jalandabad West bearing RTD No. 3492 dated 15.09.05.
- Owned by Sh. Ashok Kumar :** One Double Story Residential House located at B-III-294, Near Muktsar Circular Road at old Civil Hospital Road, Jalandabad West bearing RTD No. 1280 dated 10.07.85 and RTD No. 3160 dated 09.02.89.
- Owned by Shri Ram Lal (Deceased) :** Shop Number 1644 measuring 80.94 sq. yards at Bhamani Bazar, Jalandabad West bearing RTD No. 1382 dated 11.08.87.
- Owned by M/s Ram Lal Om Parkash :** One Shop No. 31 measuring 277.77 sq. yards at New Grain market Jalandabad West bearing RTD No. 6156 dated 24.02.99.
- Owned by Shri Ashok Kumar and Shri Ram Lal (Deceased) :** Residential house measuring 4840 sq. yards situated at Ram Shamam Colony, Ferozpur Road, Jalandabad West RTD No. 3022 dated 13.09.06, RTD No. 3481 dated 26.10.06 and RTD No. 5907 dated 26.03.08.
- Owned by Shri Ankush Kumar and Shri Navdeep Kumar :** Two story Residential house measuring 288.64 sq. yards situated at Ram Shamam Colony, Near Kothi Ashok Aneja, Jalandabad West bearing RTD No. 200 dated 21.04.11.
- Owned by Shri Gaurav Kumar :** Vacant Plot measuring 605 sq. yards situated at Ram Shamam Colony, Near Kothi Roshan Lal Asija Jalandabad West bearing RTD No. 2146 dated 14.07.11.
- Owned by Shri Ashok Kumar and Shri Ram Lal (Deceased) :** Shop No. 30 measuring 288.19 sq. yards situated at New Grain Market Jalandabad West bearing RTD No. 2929 dated 09.12.97.
- Owned by Smt. Shashi Bala :** One Corner Plot measuring 20'x80' at Mohkam Arian Road, Near Red Light Chowk at Jalandabad West vide RTD No. 1399 dated 19.10.15.

Date : 16.07.2020 Place : Jalandabad West Authorized Officer

Regional Office, Delhi Metro Region-III, Plot No.19 & 31, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092.

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES "APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 6 (2) & 8 (6)]
 E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6 (2) & 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorized Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of dues in below mentioned accounts. The details of Borrower/s/Mortgagor/Guarantor/s/Secured Asset/s/Dues/Reserve Price/e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below-

Sl. No.	Name & address of Borrower/s / Guarantor/ Mortgagor s	Description of the immovable property with known encumbrances, if any	Total Dues.	Reserve Price (Rs.) EMD Bid Increase Amount	Date and time of E-auction	Status of Possession	Property Inspection date & Time.	Branch name and Contact person number
1.	Mr. Manoj Kumar Ram s/o Shri Rajendra Ram & Mrs. Mina Devi w/o Manoj Kumar Ram R/o- Flat no 151-G.Ground Floor, Block -Gulmohar Estate, Sector -01, Greater Noida, Gautambudh Nagar, UP, Admeasuring of 48.00 Sq.mtr.	Flat no 151-G. Ground Floor, Block -Gulmohar Estate, Sector -01, Greater Noida, Gautambudh Nagar, UP, Admeasuring of 48.00 Sq.mtr.	Rs. 20,60,849.70 (Rs Twenty Lacs Sixty Thousand eight hundred Forty Nine and Seventy Paise only) and interest and charged thereon from 01.09.2019	₹ 15,41,485.00	07.08.2020 at From 10.00 am to 3.00 PM	Physical Possession	24.07.2020 from 10.00 am to 2.00 PM	Noida, Sec-63 Branch and Mob.: 9148669317, 0120-2427140/41
				₹ 1,54,148.00				
				₹ 10,000/-				
2.	Mr. Akshay Kumar S/o Vikram Sharma & Mrs. Rekha Devi W/o Vikram Sharma, R/o- HN-51, Tugalpur, greater Noida, Alpha-1, GB Nagar, UP-201308	Flat no.1209, 2nd floor, Block A, Sec-Mu-II, Gr. Noida, GB Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 40.0 Sq mtr or 430.56 sqft.	Rs. 19,60,553.70 (Rs Nineteen Lacs Sixty Thousand Five hundred Fifty three and Seventy Paise only) and interest and charged thereon from 01.11.2019	₹ 15,81,017.00	07.08.2020 at From 01.00 PM to 3.00 PM	Physical Possession	24.07.2020 from 10.00 am to 2.00 PM	Noida, Sec-63 Branch and Mob.: 9148669317, 0120-2427140/41
				₹ 1,58,102.00				
				₹ 10,000/-				
3.	Mr. Krishan Kumar S/o Birajpal Singh & Mrs. Meenu W/o Kishan Kumar. R/o- Housing Loan-Flat No-135, Gr. Fir , Block -B, Sec-Omicron-I, Gr. Noida, GB Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 32.0sqmtr or 344.45sqft.	Housing Loan-Flat No-135, Gr. Fir, Block -B, Sec-Omicron-I, Gr. Noida, GB Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 32.0sqmtr or 344.45sqft.	Rs. 13,59,474.00 (Rs Thirteen Lacs Fifty Nine Thousand Four Hundred and Seventy Four only) and interest and charged thereon from 01.10.2019	₹ 11,06,718.00	07.08.2020 at From 01.00 PM to 3.00 PM	Physical Possession	24.07.2020 from 10.00 am to 2.00 PM	Noida, Sec-63 Branch and Mob.: 9148669317, 0120-2427140/41
				₹ 1,10,672.00				
				₹ 10,000/-				
4.	Mr. Rahul Kumar S/o-Birajpal Singh & Mrs. Komal W/o-Rahul Kumar R/o- Housing Loan-Flat no. 511-B, 1st Floor, Block-Shramik Kunj, Sec-122, Noida, GB Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 28.19sqmtr or 303.43sqft.	Housing Loan-Flat no. 511-B, 1st Floor, Block-Shramik Kunj, Sec-122, Noida, GB Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 28.19sqmtr or 303.43sqft.	Rs. 13,28,127.00 (Rs Thirteen Lacs Twenty Eight Thousand One hundred and Twenty Seven only) and interest and charged thereon from 01.10.2019	₹ 6,15,129.00	07.08.2020 at From 01.00 PM to 3.00 PM	Physical Possession	24.07.2020 from 10.00 am to 2.00 PM	Noida, Sec-63 Branch and Mob.: 9148669317, 0120-2427140/41
				₹ 61,513.00				
				₹ 10,000/-				
5.	Mr. Kamal Dixit S/o Naurangi Lal Dixit & Mrs. Khushbu Dixit W/o Kamal Dixit, R/o- Flat No.463g, Gr. Floor, block g, Gulmohar Estate, Sec-PH-I, Gr. Noida, GB Nagar, UP	Flat No.463g, Gr. Floor, block G, Gulmohar Estate, Sec-PH-I, Gr. Noida, GB Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 430.55 Sq. ft.	Rs.19,28,220.19 (Rs Nineteen Lacs Twenty Eight thousand, Two Hundred, twenty and Nineteen Paise Only) and interest and charged thereon from 01.11.2019	₹ 15,48,079.00	07.08.2020 at From 01.00 PM to 3.00 PM	Physical Possession	24.07.2020 from 10.00 am to 2.00 PM	Noida, Sec-63 Branch and Mob.: 9148669317, 0120-2427140/41
				₹ 1,54,808.00				
				₹ 10,000/-				
6.	Mr. Suresh Sahni S/o Hirday Sahani & Mrs. Ramsakshi Devi W/o-Suresh Sahani, R/o- flat No. 1295, Block-A,3rd Floor Sec-Mu-II, Gr. Noida, GB Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 430.00 Sq. ft.	Housing Loan-Flat No. 1295, Block-A, 3rd Floor Sec-Mu-II, Gr. Noida, G B Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 430.00 Sq. ft.	Rs. 21,62,408.00 (Rs Twenty one Lacs Sixty Two Thousand, Four Hundred and Eight Only) and interest and charged thereon from 01.09.2019	₹ 14,16,327.00	07.08.2020 at From 01.00 PM to 3.00 PM	Physical Possession	24.07.2020 from 10.00 am to 2.00 PM	Noida, Sec-63 Branch and Mob.: 9148669317, 0120-2427140/41
				₹ 1,41,632.00				
				₹ 10,000/-				
7.	Mr Jagvir Singh S/o- Shree Ramphal Singh and Mrs Sunita W/o- Mr Jagvir Singh R/o- Flat No. 303, third Floor, Block-I, Adarsh Vihar Society Sector -CHI PHI, Greater Noida, District- Gautam Budh Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 30.00Sq. Mtr. And 322.92 Sq. ft.	Residential Flat No 303, third Floor, Block-I, Adarsh Vihar Society Sector -CHI PHI, Greater Noida, District- Gautam Budh Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 30.00Sq. Mtr. And 322.92 Sq. ft.	Rs.12,50,643 (Rs Twelve Lacs Fifty Thousand, Six Hundred and Forty Three only) and interest and charged thereon from 05.01.2018	₹ 8,10,000.00	07.08.2020 at From 01.00 PM to 3.00 PM	Physical Possession	24.07.2020 from 10.00 am to 2.00 PM	Noida, Sec-63 Branch and Mob.: 9148669317, 0120-2427140/41
				₹ 81,000.00				
				₹ 10,000/-				
8.	Mr Vineet Kumar Pal S/o Shree Roop Narayan Pal and Mr Vipin Kumar S/o Shree Roop Narayan Pal , R/o- Flat No 597,1st Floor, Block-E, Situated at Sector-XU-01, Greater Noida, District- Gautam Budh Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 30.00Sq. Mtr. And 322.92 Sq.ft.	Residential Flat No 597,1st Floor, Block-E, Situated at Sector-XU-01, Greater Noida, District- Gautam Budh Nagar, UP, Admeasuring of Flat area 3						

इनफोसिस के शेयर में बढ़त से सूचकांक में 420 अंक का उछाल

मुंबई, 16 जुलाई (भाषा)।

इनफोसिस के शेयर में जोरदार बढ़त से बृहस्पतिवार को सूचकांक में 420 अंक का उछाल आया। हालांकि, कोरोना विषाणु के बढ़ते मामलों के बीच वैश्विक बाजारों में बिकवाली का दबाव रहा। बेहद उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक कारोबार की समाप्ति पर 419.87 अंक या 1.16 फीसद की बढ़त के साथ 36,471.68 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 121.75 अंक या 1.15 फीसद की बढ़त के साथ 10,739.95 अंक पर पहुंच गया।

सूचकांक की कंपनियों में इनफोसिस का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इनफोसिस का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ उम्मीद से बेहतर रहा है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आईटी क्षेत्र की

इक्रा के मुताबिक जीडीपी में 2020-21 में 9.5 फीसद गिरावट आने का अनुमान

मुंबई, 16 जुलाई (भाषा)।

घरेलू रेटिंग एजंसी इक्रा ने चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के अनुमान को संशोधित कर और बढ़ाया है। इसके अनुसार 2020-21 में जीडीपी में 9.5 फीसद की गिरावट आएगी, जबकि पूर्व में 5 फीसद गिरावट का अनुमान जताया गया था। रेटिंग एजंसी का कहना है कि कुछ राज्यों में ‘पूर्णबंदी’ जारी रहने से मई और जून में शुरू हुई पुनरूद्धार गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। ज्यादातर विश्लेषकों का अनुमान है कि देश के जीडीपी में 5 से 6.5 फीसद तक की गिरावट आ सकती है।

इक्रा ने एक रिपोर्ट में कहा कि हमने भारत के जीडीपी में (स्थिर मूल्य 2011-12 पर) गिरावट के अनुमान को संशोधित किया है। इसके तहत इसमें 9.5 फीसद की गिरावट आ सकती है, जबकि पूर्व में हमने 5 फीसद गिरावट का अनुमान जताया था। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों और शहरों में ‘पूर्णबंदी’ से मई-जून, 2020 में जो एक शुष्कआती पुनरूद्धार दिखा था, उस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में 2020-21 की

आरबीआइ ने एआरसी से ऋण वसूली की निष्पक्ष आचार संहिता अपनाने को कहा

मुंबई, 16 जुलाई (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) से निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त न्यायसंगत आचार संहिता अपनाने को कहा, ताकि अन्य बातों के अलावा ऋण वसूली के मामले में असभ्य, गैरकानूनी और संदिग्ध व्यवहार के इस्तेमाल को रोका जा सके। केंद्रीय बैंक ने कहा कि संहिता से परिचालन में पारदर्शिता और निष्पक्षता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। एआरसी बैंकों के फंसे हुए ऋणों को खरीदते हैं और उनकी वसूली करते हैं।

आरबीआइ ने कहा कि हितधारकों से निपटने में पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को अपनाने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों को उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित साफ सुथरी स्पष्ट आचार संहिता (एफपीसी) लागू करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए न्यूनतम विनियामक अपेक्षा निर्धारित की है, जबकि प्रत्येक एआरसी का बोर्ड इस संबंध में अपने दायरे को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि एफपीसी में सही तरीके का पालन किया

दिग्गज कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 12.4 फीसद बढ़कर 4,272 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे कंपनी का शेयर 9.56 फीसद चढ़ गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक के शेयर भी 3.81 फीसद तक के लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर टेक महिंद्रा, आईटीसी, एनटीपीसी, पावरग्रिड, टाइटान और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 2.54 फीसद तक टूट गए।

कारोबारियों ने कहा कि इनफोसिस की अगुआई में आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। हालांकि, चीन के बाजारों में बिकवाली और कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहा। चीन का शंघाई कम्पोजिट 4.50 फीसद टूट गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2020 की दूसरी तिमाही में चीन की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 3.2 फीसद रही है।

पहली तिमाही में 25 फीसद की बड़ी गिरावट आ सकती है। उसके बाद कुछ हल्का सुधार देखने को मिल सकता है। दूसरी और तीसरी तिमाही में इसमें 12.4 फीसद और 2.3 फीसद की गिरावट आ सकती है। चौथी तिमाही में 1.3 फीसद वृद्धि का अनुमान है। इक्रा की प्रधान अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अप्रैल 2020 में कड़ाई से लगाए गए पूर्णबंदी के कड़े अनुभव से बाहर निकलने लगी थी। कई क्षेत्रों में यह देखा जा रहा था कि वे नई व्यवस्था के साथ स्वयं को समायोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर पूर्णबंदी फिर से लगाया गया है। इससे पुनरूद्धार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

नायर ने कहा कि महामारी की गंभीरता और इससे बचाव के लिए सुरक्षा उपायों की अवधि को देखते हुए हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पूर्व के अनुमान के मुकाबले बड़ी गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि कई क्षेत्रों में पूर्णबंदी और कई क्षेत्रों में स्थिति में ढील व श्रम की मांग व आपूर्ति में अंतर, आपूर्ति व्यवस्था तथा खपत प्रतिरूप को प्रभावित कर रहा है।

नायर ने कहा कि महामारी की गंभीरता और इससे बचाव के लिए सुरक्षा उपायों की अवधि को देखते हुए हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पूर्व के अनुमान के मुकाबले बड़ी गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि कई क्षेत्रों में पूर्णबंदी और कई क्षेत्रों में स्थिति में ढील व श्रम की मांग व आपूर्ति में अंतर, आपूर्ति व्यवस्था तथा खपत प्रतिरूप को प्रभावित कर रहा है। मूल्य के संदर्भ में खाद्य तेल का लदान 52.36 फीसद बढ़कर 955.51 करोड़ रुपए का हो गया, जबकि वर्ष 2018-19 में यह निर्यात 52,490 टन का हुआ था, जिसका मूल्य 627.11 करोड़ रुपए रहा था। देश विदेशों में बसे भारतीयों की मांग को पूरा करने के लिए कम मात्रा में खाद्य तेलों का निर्यात करता है।

जाना चाहिए, और बोर्ड को इसके उचित कार्यान्वयन में खुद को शामिल करना चाहिए। इसमें कहा गया कि एआरसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं का पालन करेंगे। एफपीसी के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार बकाए के भुगतान के बाद एआरसी को गारंटी के रूप में दिए गए सभी दस्तावेजों को वापस करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि एआरसी यह सुनिश्चित करेगा कि रिकवरी एजेंटों को संवेदनशीलता के साथ उनकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए ठीक से प्रशिक्षित किया जाए। सशक्तौ से कॉलिंग की जानकारी, ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता जैसे पहलुओं के संबंध में। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिकवरी एजेंट असभ्य, गैरकानूनी और संदिग्ध व्यवहार न करें और वसूली के लिए कर्जदार का उद्दीड़न न करें।

गेल, ऑयल इंडिया से 2.3 लाख करोड़ रुपए का मांग नोटिस वापस लिया दूरसंचार विभाग ने

नई दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा)।

दूरसंचार विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया लि. और तेल कंपनी ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) को दूरसंचार बकाए के रूप में दिया गया 2.3 लाख करोड़ रुपए की मांग का नोटिस वापस ले लिया है। दोनों कंपनियों ने शेयर बाजार को दी सूचना में यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर, 2019 के आदेश के बाद दूरसंचार विभाग ने गेल से 1.83 लाख करोड़ रुपए और ऑयल से 48,489 करोड़ रुपए की मांग की थी। आदेश में सांविधिक बकाए के आकलन में दूरसंचार कंपनियों के लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क जैसे गैर-दूरसंचार राजस्व को शामिल करने को कहा गया था।

न्यायालय ने पिछले महीने कहा कि गैर-दूरसंचार कंपनियों से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में बकाया की मांग करना ‘पूरी तरह से अनुचित’ है। शीर्ष अदालत ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) से इस प्रकार की मांग पर पुनर्विचार करने की कहा और अब डीओटी ने उसे वापस ले लिया है। गेल ने कहा कि उसे 14 जुलाई का दूरसंचार विभाग का मांग मिला है, जिसमें कंपनी को जारी सभी पत्र नोटिस को वापस लेने की बात कही गई है। कंपनी ने कहा कि दावा वापस लेने के बाद गेल के ऊपर दूरसंचार विभाग का एजीआर मामले में कुछ भी बकाया नहीं है।

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से किया। गडकरी इसी संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एमएसएमई, उद्योगों, कृषि, बुनियादी ढांचे, हर जगह हमें योजना बनाने की आवश्यकता है और एक उचित दृष्टि के साथ हमें तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी है और समय की आवश्यकता है कि पीपीपी परियोजनाओं के माध्यम से मांग पैदा की जाए।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि उद्योग द्वारा प्रदूषण के स्तर के स्व मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली का पता लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस मामले में यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो जुर्माना राशि कई गुना हो सकती है, जिसमें बार-बार उल्लंघन के मामले में जेल की सजा भी शामिल है। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है और एक लाख करोड़ रुपए के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे समेत 22 हरित राजमार्गों पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे यात्रा के समय को घटाकर 28 घंटे कर देगा, जिसमें अभी 48 से 50 घंटे तक लगते हैं। उन्होंने महानगरों से भीड़ कम करने व दूर-दराज क्षेत्रों के विकास के लिए राजमार्गों के साथ-साथ औद्योगिक समूहों को स्थापित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमें एलएनजी की मदद से अपने परिवहन को बदलने की जरूरत है, जो भविष्य का ईंधन है।

बिजली क्षेत्र में तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को 15 फीसद से नीचे लाने का निर्देश

नई दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिजली वितरण में राज्य के सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को 90 दिनों के भीतर 15 फीसद से कम करें।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी फीडर के तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान (एटी एंड सी) को चरणबद्ध तरीके से 15 फीसद से नीचे लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में हर 90 दिन में 60 फीडर के एटी एंड सी नुकसान को कम करने का जिम्मा वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और सतर्कता विभाग पर होगा। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष व सतर्कता विभाग के महानिदेशक इसकी निगरानी करेंगे। उन्होंने संबंधित राज्य डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को भी योजना में सहयोग करने का निर्देश दिया और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

इसके अलावा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों और ग्राम प्रधानों से अपने क्षेत्रों में फीडर के नुकसान को कम करने में मदद के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ईमानदार उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली प्रदान करना है, जो अपने बिलों का समय पर भुगतान करते हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिजली चोरी पर पूरी तरह से रोक लगाना बेहद जरूरी है।

खाद्य तेलों का निर्यात 54 फीसद बढ़कर 80,765 टन पर

नई दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा)।

देश से खाद्य तेलों का निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 54 फीसद बढ़कर 80,765 टन तक पहुंच गया। इस वृद्धि का कारण विशेषकर चीन को मूंगफली तेल के निर्यात में भारी वृद्धि का होना था। तेल उद्योगों के प्रमुख संगठन (सॉल्टर् एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन एसाइए) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मूल्य के संदर्भ में खाद्य तेल का लदान 52.36 फीसद बढ़कर 955.51 करोड़ रुपए का हो गया, जबकि वर्ष 2018-19 में यह निर्यात 52,490 टन का हुआ था, जिसका मूल्य 627.11 करोड़ रुपए रहा था। देश विदेशों में बसे भारतीयों की मांग को पूरा करने के लिए कम मात्रा में खाद्य तेलों का निर्यात करता है।

<p>पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank <i>the bank of Punjab</i> </p>	
शाखा: वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.); संकेत कार्यालय, गाजियाबाद (उ.प्र.)	
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/चल सम्पत्ति के लिये)	
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (4) तथा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना यहाँ नीचे तालिका में वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारक को सूचना की प्रतिलिपि के लिये से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक तथा गारन्टर/स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टर/तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।	
क्रम क्रम ऋणधारक/गारन्टर का सं. नाम सम्पत्ति का विवरण सूचना 13 (4) में बकाया राशि एवं देयता मांग सूचना तिथि/कब्जा की तिथि	
1 मंगणपति इलेक्ट्रिकल, प्राय. मनीज कुमार गुप्ता, ऋणखाला सं. 4718008700000294	शीप नं. 25, पू तल, रामपुरी मार्केट, ब्लॉक-ए-10, ए-11, सेक्टर-07, टीएचए, रामपुरी, गाजियाबाद (उ.प्र.)
30.06.2019 को रू.1741102/- +आगे का व्याज-लागत+खर्च	26.07.2019/ 14.07.2020
तिथि: 15.07.2020 <p>स्थान: गाजियाबाद (उ.प्र.)</p>	(प्राधिकृत अधिकारी)

CCL INTERNATIONAL LIMITED <p>CIN:L26940DL1991PLC044520</p> REGD.OFF. : M-4, GUPTA TOWER, B 1/1, COMMERCIAL COMPLEX, AZADPUR, NEW-DELHI-110 033 <p>Ph. 0120-4214258, Email: cnpsec@cccl.com; website: www.evocreteindia.com</p>				
Statement of Audited Financial Results for the Quarter & Year Ended March 31, 2020				
₹ in lakhs				
	Standalone			
S. No.	Particulars	Quarter Ended	Year Ended	
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income from operations	1,015.61	839.63	1,638.80
2.	Net Profit/ (loss) for the period (Before Tax, exceptional and extraordinary items)	(46.86)	250.17	129.80
3.	Net Profit/ (loss) for the period before Tax (after exceptional and extraordinary items)	(46.86)	250.17	129.80
4.	Net Profit/ (loss) for the period after Tax (after exceptional and extraordinary items)	(47.24)	249.50	120.27
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(47.24)	249.50	120.27
6.	Paid up equity share capital (face value Rs.10/- each)	1,919.26	1,919.26	1,919.26
7.	Reserves (excluding revaluation reserve)	-	-	2,623.31
8.	Basic and Diluted Earning Per Share (Rs.) (not annualized)			
	-EPS before exceptional item	(0.25)	1.30	0.63
	-EPS after exceptional item	(0.25)	1.30	0.63
Notes:				
1.	The above results have been reviewed Audit committee at their meeting held on July 16, 2020 and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on July 16, 2020.			
2.	The Financial results have been prepared in accordance with Ind AS as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements, 2015.			
3.	The entire operations of the company relate to two segments viz Trading & Construction. Hence, segment reporting as per Ind AS 108 is made.			
4.	The Novel Corona virus (COVID -19) pandemic announced as such by the World Health Organization on 11th March 2020, has contributed to a significant decline in the global and Indian market, and significant decrease in economic activity. The Management has considered the possible effect, if any, that may result from this pandemic on amounts relating to the trade receivables & inventories. In assessing the recoverability of receivables, the company has considered internal & external information upto the date of approval of these financial results including credit reports & economic forecasts. It has accordingly appropriately made provisions/impaired assets whenever required & accounted for the same in these results as per accounting standards. The impact assessment of COVID -19 is an on-going process and the company will continue to monitor any material changes to future economic conditions and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government mandated or elected by the company.			
5.	Figures for the previous year have been re-arranged wherever necessary, in line with the current period presentation.			
6.	The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results for the Quarter ended 31.03.2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.evocreteindia.com.			
	For and behalf of Board of Directors			
	CCL International Limited			
	Sd/-		Sd/-	
	Rama Gupta Managing Director		Akash Gupta Director	
	DIN : 00080613		DIN : 01940481	
Date: 16th Day of July 2020				
Place: New Delhi				

प्राभजीत सिंह उबर इंडिया, दक्षिण एशिया के अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा)।

ऐप आधारित कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्राभजीत सिंह को भारत और दक्षिण एशिया परिचालन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभावी है। वह अपनी नई भूमिका में कंपनी के आलामामन व्यवसाय की वृद्धि के अगले चरण की निगरानी करेंगे। वह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में वाहन चालकों व यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले सिंह परिचालन निदेशक (भारत और दक्षिण एशिया) व हेड ऑफ सिटीज के पद पर कार्यरत थे। उबर के क्षेत्रीय महाप्रबंधक (एशिया प्रशांत) प्रदीप परमेश्वरन ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

फोनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड <p>CIN: L74899DL1987PLC030092 <p>पंजी. कार्यालय: 3रा मंज, गोपाल टवर, 25, गन्डूबा प्लेस, नई दिल्ली-110008 <p>टेली: (91-11) 25747696/2575 1934/35/36, फैक्स: (91-11) 2575 1937/38 <p>ईमेल: narendermakkar@yahoo.com</p></p></p></p>
सूचना

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सेबी (सूचीकृत दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 28.7.2020 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं, तिथि 19 मार्च, 2020 तथा 23 जून, 2020 के अनुसार अधिचौकी विनियमों द्वारा अधिपति की जावनी विषयों अन्य विषयों के अलावे तत्कालीन अधिपि के लिये अधिदरों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 31.3.2020 की समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के लिये कम्पनी के स्टेट्समेंट एवं सम्बन्धित अंकशेखर विवरित परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

पुनः कम्पनी की प्रतिभूतियों में इन्साइड ट्रेडिंग निषेध के लिये आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की शेयरों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विधेओ 31.3.2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय परिणामों को सार्वजनिक करने के 48 घंटे बाद तब बंद रहेगा।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट <http://www.phoenixindia.com> तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट <https://www.bseindia.com> पर भी देखी जा सकती है।

फोनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये

हरना./-
नन्दन कुमार मक्खन
(DIN:00026857)
निदेशक

RELAXO FOOTWEARS LIMITED <p>CIN No.-L74899DL1984PLC019097 Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi - 110085 Ph: 91-11-46800600, 46800700; Fax No: 91-11-46800692 E-mail: rlf@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com</p>
NOTICE

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company.

FOLIO NO.	NAME OF HOLDER	CERT. NO(S)	DISTINCTIVE NOS.	NO. OF SHARES	FACE VALUE OF SHARES (IN ₹)
RNE0000662	MAHESH KUMAR MAHENDRA	100332 1003432	568026-570025 60358116-60360115	2000 2000	1.00 2000

Any person having any claim / objection in respect of the above requests should lodge such claim / objection with KIn Technologies Private Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at its office situated at Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032 or with the Company at its registered office or corporate office at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi - 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests.

For Relaxo Footwears Limited
Sd/-
Vikas Kumar Tak
Company Secretary

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड <p>(पूर्व का फैक्टिल फर्स्ट लिमिटेड) संजीर्णित: L65110TN2014PLC097792 नेशनल कार्यालय: केआरएम टॉवर, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेन्नै, तमिऴनडु-600031, दूरभाष: +91 44 4564 4000 । फैक्स: +91 44 4564 4022. अधिकृत प्राधिकारी : श्री मोहन राज । सभ्यक नम्बर : +91-97111404914</p>	
<p>प्राथमिक-IV-A (नियम 8 (ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत) अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना</p>	

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) निियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूत हित अधिनियम, 2002 की विनियम अधिनियम तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल अस्त्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार (रो) के प्रतिभूति (यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गतिव्यूक्त/प्रचलित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर फैक्टिल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने भीतिक कब्जा किया है, का वसूली एजेन्सीज, राज आहुड़ा, ऋषि आहुड़ा (कर्जनरहकर्जदार (रो) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का फैक्टिल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) के 16.11.2019 तक बकाये रु. 4,56,97,242/- की वसूली के लिए 26.08.2020 को “जी जहाँ है वैसे से” , “जो है यहाँ है” तथा “जो कुछ भी है वहाँ है” के आधार पर विक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 3,50,00,000/- होगा तथा न्यूनतम धरोहर राशि रु. 35,00,000/- होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट सं. 283, सेनेक कारपोरेटवर्क हटस, सेनेक विहार के नाम से मिलिन्डम सासाइट, पातमपुरा, दिल्ली-110034 का सम्पूर्ण भाग।

विक्रय के दिस्तृत निियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट www.idfcfirstbank.com में प्रावधानित लिंक देखें।
अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की विक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपरिचलित किसी चल अस्त्तियों, यदि कोई हो, की विक्री का कोई अधिकार नहीं है।

H./-
अधिकृत प्राधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का फैक्टिल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड)
दिनांक : 15.07.2020

सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 1911 से आरंभ की गई "केन्द्रीय" "CENTRAL" TO YOU सिने 1911
शाखा कार्यालय: 94, बंगला शाहीब लेंज, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति को लिए) परिधिष्ठ-IV (नियम 8 (1) देखें)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गोल मार्केट नई दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13